



भारतीय रिज़र्व बैंक  
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : [www.rbi.org.in/hindi](http://www.rbi.org.in/hindi)

Website : [www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in)

ई-मेल/email : [helpdoc@rbi.org.in](mailto:helpdoc@rbi.org.in)

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, एस.बी.एस. मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001

Department of Communication, Central Office, S.B.S. Marg, Fort, Mumbai - 400 001

फोन/Phone: 022 - 2266 0502



आज़ादी का  
अमृत महोत्सव

29 सितंबर 2022

## जून 2022 के अंत में भारत का बाह्य ऋण

जून 2022 के अंत में भारत के बाह्य ऋण संबंधी स्टॉक तथा पहले की तिमाहियों के संशोधित आंकड़े [विवरण I \(आईएमएफ फॉर्मेट<sup>1</sup>\)](#) और [II \(पुराना फॉर्मेट\)](#) में दिए गए हैं। जून 2022 के अंत में भारत के बाह्य ऋण से संबंधित प्रमुख गतिविधियां नीचे प्रस्तुत हैं।

### मुख्य-मुख्य बातें

- जून 2022 के अंत में, भारत का बाह्य ऋण 617.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसने मार्च 2022 के अंत के अपने स्तर से 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की गिरावट दर्ज की है ([तालिका 1](#))।
- जीडीपी की तुलना में बाह्य ऋण का अनुपात जून 2022 के अंत में घटकर 19.4 प्रतिशत हो गया, जो मार्च 2022 के अंत में 19.9 प्रतिशत था।
- भारतीय रुपये और येन, एसडीआर<sup>2</sup>, और यूरो जैसी प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अमेरिकी डॉलर की मूल्यवृद्धि के कारण मूल्यनिर्धारण लाभ 14.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। मूल्यनिर्धारण प्रभाव को छोड़कर, बाह्य ऋण में मार्च 2022 के अंत की 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की गिरावट की तुलना में जून 2022 के अंत में 11.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक की वृद्धि हो सकती थी।
- जून 2022 के अंत में, दीर्घकालिक ऋण (एक वर्ष से अधिक की मूल परिपक्वता के साथ) 487.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जिसमें मार्च 2022 के अंत में अपने स्तर से 10.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर की गिरावट दर्ज की गई।
- कुल बाह्य ऋण में अल्पकालिक ऋण (एक वर्ष तक की मूल परिपक्वता के साथ) की हिस्सेदारी जून 2022 के अंत में बढ़कर 21.0 प्रतिशत हो गया, जो मार्च 2022 के अंत में 19.6 प्रतिशत था। इसी तरह, विदेशी मुद्रा भंडार की तुलना में अल्पकालिक ऋण (मूल परिपक्वता) का अनुपात जून 2022 के अंत में बढ़कर 22.0 प्रतिशत (मार्च 2022 के अंत में 20.0 प्रतिशत) हो गया।
- अवशिष्ट परिपक्वता आधार पर अल्पकालिक ऋण (अर्थात्, ऋण देयताएं जिसमें दीर्घकालिक ऋण शामिल है जिनकी मूल परिपक्वता अगले बारह महीनों में देय हो रही है तथा मूल परिपक्वता वाले अल्पकालिक ऋण शामिल है) की हिस्सेदारी जून 2022 के अंत में कुल बाह्य ऋण की 45.4 प्रतिशत रही (मार्च 2022 के अंत में 43.2 प्रतिशत) तथा विदेशी मुद्रा भंडार की 47.6 प्रतिशत (मार्च 2022 के अंत में 44.0 प्रतिशत) रही ([तालिका 2](#))।

<sup>1</sup> आईएमएफ की 2013 के बाह्य ऋण सांख्यिकी (ईडीएस) गाइड में निर्धारित अवधारणाएं राष्ट्रीय लेखा प्रणाली (एसएनए) 2008 और आईएमएफ के भुगतान संतुलन और अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति मैनुअल (बीपीएम 6) के छठे संस्करण, जो 2009 में प्रकाशित हुई थी, के अनुरूप हैं।

<sup>2</sup> एसडीआर: विशेष आहरण अधिकार।

- vii) अमेरिकी डॉलर मूल्यवर्गांकित ऋण भारत के बाह्य ऋण का सबसे बड़ा घटक बना रहा, जिसकी हिस्सेदारी जून 2022 के अंत में 54.7 प्रतिशत रही, जिसके बाद भारतीय रुपया (30.4 प्रतिशत), एसडीआर (6.3 प्रतिशत), येन (5.1 प्रतिशत), और यूरो (2.8 प्रतिशत) में मूल्यवर्गांकित ऋण रहे।
- viii) जून 2022 के अंत में सामान्य सरकारी बकाया ऋण में गिरावट आई, जबकि गैर-सरकारी दोनों ऋण में वृद्धि हुई ([तालिका 3](#))।
- ix) कुल बाह्य ऋण में गैर-वित्तीय निगमों के बकाया ऋण की हिस्सेदारी 41.3 प्रतिशत थी, इसके बाद जमा स्वीकार करने वाले निगम (केंद्रीय बैंक को छोड़कर) (25.2 प्रतिशत), सामान्य सरकार (20.7 प्रतिशत) और अन्य वित्तीय निगम (8.4 प्रतिशत) की हिस्सेदारी थी।
- x) 31.1 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ ऋण, बाह्य ऋण का सबसे बड़ा घटक बना रहा, इसके पश्चात मुद्रा और जमा (22.3 प्रतिशत), व्यापार ऋण और अग्रिम (20.6 प्रतिशत) और ऋण प्रतिभूतियां (18.0 प्रतिशत) की हिस्सेदारी थी ([तालिका 4](#))।
- xi) ऋण सेवा (अर्थात्, मूलधन चुकौती और ब्याज भुगतान) मार्च 2022 के अंत के 5.2 प्रतिशत की तुलना में जून 2022 के अंत में चालू प्राप्तियों के 4.9 प्रतिशत हो गई ([तालिका 5](#))।

**Table 1: External Debt – Outstanding and Variation**

(US\$ billion, unless indicated otherwise)

Sector	Outstanding as at end of			Absolute Variation		Percentage Variation	
	June 2021 PR	March 2022 PR	June 2022 P	Jun. 2022 over Jun. 2021	Jun. 2022 over Mar. 2022	Jun. 2022 over Jun. 2021	Jun. 2022 over Mar. 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
I. General Government	111.8	130.8	127.7	15.9	-3.1	14.2	-2.4
II. Central Bank	0.3	0.1	0.1	-0.2	0.0	-64.6	60.7
III. Deposit-taking Corporations, except the Central Bank	160.5	158.7	155.3	-5.2	-3.4	-3.2	-2.2
IV. Other Sectors	276.9	302.3	306.3	29.4	3.9	10.6	1.3
IV.1. Other financial corporations	50.5	52.8	51.6	1.1	-1.1	2.2	-2.2
IV.2. Non-financial corporations	226.4	249.6	254.6	28.3	5.1	12.5	2.0
IV.3. Households and nonprofit institutions serving households (NPISHs)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-16.0	-7.6
V. Direct Investment: Intercompany Lending	25.7	27.7	27.7	2.0	0.0	7.9	0.2
<b>Total Debt (I to V)</b> <i>(As percentage of GDP)</i>	<b>575.3</b> <i>(20.3)</i>	<b>619.6</b> <i>(19.9)</i>	<b>617.1</b> <i>(19.4)</i>	<b>41.8</b>	<b>-2.5</b>	<b>7.3</b>	<b>-0.4</b>
<i>Memo Items:</i>							
A. Long-term Debt (original maturity)@	472.8	497.9	487.3	14.6	-10.6	3.1	-2.1
B. Short-term Debt (original maturity)#	102.5	121.7	129.8	27.3	8.1	26.6	6.6
PR: Partially Revised. P: Provisional.							
@: Debt with original maturity of above one year.							
#: Debt with original maturity of up to one year.							
<b>Note:</b> Figures may not add up to total due to rounding off.							

**Table 2: Residual Maturity of Outstanding External Debt as at end-June 2022**

(US\$ billion, unless indicated otherwise)

Sector	Short-term up to one year	1 to 2 years	2 to 3 years	More than 3 years	Total (2 to 5)
1	2	3	4	5	6
<b>I. General Government</b>	7.2	8.0	9.3	103.2	127.7
I.A. Short-term	0.8				0.8
I.B. Long-term	6.4	8.0	9.3	103.2	126.9
<b>II. Central Bank</b>	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1
II.A. Short-term	0.1				0.1
II.B. Long-term	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>III. Deposit-Taking Corporations, except the Central Bank</b>	99.6	18.4	9.8	27.5	155.3
III.A. Short-term	1.3				1.3
III.B. Long-term	98.2	18.4	9.8	27.5	154.0
<b>IV. Other Sectors</b>	167.9	28.1	23.4	86.8	306.3
IV.A. Short-term	127.5				127.5
IV.B. Long-term	40.4	28.1	23.4	86.8	178.7
<b>IV.1. Other financial corporations</b>	13.9	8.5	5.8	23.3	51.6
IV.1.A. Short-term	1.4				1.4
IV.1.B. Long-term	12.5	8.5	5.8	23.3	50.2
<b>IV.2. Non-financial corporations</b>	154.0	19.6	17.6	63.5	254.6
IV.2.A. Short-term	126.1				126.1
IV.2.B. Long-term	27.9	19.6	17.6	63.5	128.5
<b>IV.3. Households and nonprofit institutions serving households (NPISHs)</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV.3.A. Short-term	0.0				0.0
IV.3.B. Long-term	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>V. Direct Investment: Intercompany Lending</b>	5.5	3.7	3.9	14.6	27.7
A. Total Short-term Debt	129.8				129.8
B. Total Long-term Debt	150.6	58.3	46.4	232.1	487.3
<b>C. Total External Debt (A+B)</b>	280.4	58.3	46.4	232.1	617.1
<i>Memo Items:</i>					
Short-term Debt (residual maturity) as per cent of Total External Debt					45.4
Short-term Debt (residual maturity) as per cent of Foreign Exchange Reserves					47.6
<b>Note:</b> Figures may not add up to total due to rounding off.					

**Table 3: Government and Non-government External Debt**

(US\$ billion, unless indicated otherwise)				
Component	End-March			End-June
	2020	2021 PR	2022 PR	2022 P
1	2	3	4	5
A. Government Debt (I+II)	100.9	111.6	130.8	127.7
<i>(As percentage of GDP)</i>	<i>(3.8)</i>	<i>(4.1)</i>	<i>(4.2)</i>	<i>(4.0)</i>
I. External Debt on Government Account under External Assistance	72.7	84.5	86.7	86.2
II. Other Government External Debt@	28.1	27.1	44.1	41.5
B. Non-government Debt	457.4	462.0	488.8	489.4
<i>(As percentage of GDP)</i>	<i>(17.1)</i>	<i>(17.1)</i>	<i>(15.7)</i>	<i>(15.4)</i>
B.1. Central Bank	0.2	0.2	0.1	0.1
B.2. Deposit-taking Corporations, except the Central Bank	158.2	160.8	158.7	155.3
B.3. Other Financial Corporations	40.7	55.2	52.8	51.6
B.4. Non-financial Corporations	235.6	220.7	249.6	254.6
B.5. Households and nonprofit institutions serving households (NPISHs)	0.0	0.0	0.0	0.0
B.6. Direct Investment: Intercompany Lending	22.7	25.2	27.7	27.7
<b>C. Total Debt (A+B)</b>	<b>558.3</b>	<b>573.6</b>	<b>619.6</b>	<b>617.1</b>
<i>(As percentage of GDP)</i>	<i>(20.9)</i>	<i>(21.2)</i>	<i>(19.9)</i>	<i>(19.4)</i>

PR: Partially Revised. P: Provisional.

@: Other government external debt includes defence debt, investment in treasury bills/government securities by FPIs, foreign central banks and international institutions, and SDR allocations by the IMF.

**Note:** Figures may not add up to total due to rounding off.

**Table 4: Outstanding External Debt by Instruments**

(US\$ billion)				
Instrument	End-March			End-June
	2020	2021 PR	2022 PR	2022 P
1	2	3	4	5
1. Special Drawing Rights (allocations)	5.4	5.6	22.9	22.0
2. Currency and Deposits	134.1	143.8	141.0	137.4
3. Debt Securities	97.6	108.4	114.1	111.0
4. Loans	194.2	190.3	195.8	192.1
5. Trade Credit and Advances	104.3	100.3	118.2	126.9
6. Other Debt Liabilities	0.0	0.0	0.0	0.0
7. Direct Investment: Intercompany Lending	22.7	25.2	27.7	27.7
<b>Total Debt</b>	<b>558.3</b>	<b>573.6</b>	<b>619.6</b>	<b>617.1</b>

PR: Partially Revised. P: Provisional.

**Note:** Figures may not add up to total due to rounding off.

Table 5: India's Key External Debt Indicators

(Per cent, unless indicated otherwise)

End-March	External Debt (US\$ billion)	Ratio of External Debt to GDP	Debt Service Ratio	Ratio of Foreign Exchange Reserves to Total Debt	Ratio of Concessional Debt to Total Debt	Ratio of Short-Term Debt to Foreign Exchange Reserves	Ratio of Short-Term Debt (original maturity) to Total Debt
1	2	3	4	5	6	7	8
1991	83.8	28.3	35.3	7.0	45.9	146.5	10.2
1996	93.7	26.6	26.2	23.1	44.7	23.2	5.4
2001	101.3	22.1	16.6	41.7	35.4	8.6	3.6
2006	139.1	17.1	10.1#	109.0	28.4	12.9	14.0
2007	172.4	17.7	4.7	115.6	23.0	14.1	16.3
2008	224.4	18.3	4.8	138.0	19.7	14.8	20.4
2009	224.5	20.7	4.4	112.2	18.7	17.2	19.3
2010	260.9	18.5	5.8	106.9	16.8	18.8	20.1
2011	317.9	18.6	4.4	95.9	14.9	21.3	20.4
2012	360.8	21.1	6.0	81.6	13.3	26.6	21.7
2013	409.4	22.4	5.9	71.3	11.1	33.1	23.6
2014	446.2	23.9	5.9	68.2	10.4	30.1	20.5
2015	474.7	23.8	7.6	72.0	8.8	25.0	18.0
2016	484.8	23.4	8.8	74.3	9.0	23.2	17.2
2017	471.0	19.8	8.3	78.5	9.4	23.8	18.7
2018	529.3	20.1	7.5	80.2	9.1	24.1	19.3
2019	543.1	19.9	6.4	76.0	8.7	26.3	20.0
2020	558.3	20.9	6.5	85.6	8.8	22.4	19.1
2021 PR	573.6	21.2	8.2	100.6	9.0	17.5	17.6
2022 PR	619.6	19.9	5.2	98.0	8.3	20.0	19.6
End-June 2022 P	617.1	19.4	4.9	95.5	8.0	22.0	21.0

PR: Partially Revised. P: Provisional.

# works out to 6.3 per cent with the exclusion of India Millennium Deposits (IMDs) repayments of US\$ 7.1 billion and pre-payment of external debt of US\$ 23.5 million.